



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1933 (श0)
(सं0 पटना 253) पटना, बृहस्पतिवार, 2 जून 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

11 फरवरी 2011

सं० 22/नि0सि0 (सिवान)-11-9/2009/164— श्री विनय बिहारी प्रसाद, प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता), बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज के विरुद्ध वर्ष 2008-09 में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहों, शिविर गोपालगंज के अधीन निरीक्षण भवन, गोपालगंज में क्रेट बुनाई कार्य में बरती गयी अनियमितताओं की जाँच उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरांत पाया गया कि वर्ष 2008-09 में क्रेट बुनाई का कार्य विशिष्टी के अनुरूप नहीं कराया गया क्योंकि क्रेट का औसत वजन निर्धारित विशिष्टी से कम पाया गया। जिसके कारण संपादित कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हुयी। उक्त आरोप के लिये पत्रांक 1743, दिनांक 24 नवम्बर 2010 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-19 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाई गई। विभागीय कार्यवाही में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें दोष मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 253-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>